



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN: L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 18 July, 2022

PGCIL/R/2022/M-15

Shri Anil Kumar R,
Pratheeksha Plavila Lane, Kallampally, Med. Collage-PO, Thiruvanthapuram-11

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 21 June, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Anil Kumar R, Thiruvanthapuram, Kerala

Sl. No.	Information sought:	Reply:
1.	How many PSUs are controlled by Department of Public Enterprises and please provide the name of each one, on the basis of category viz. Sch A, B, C?	Replied by Department of Public Enterprises.
2.	Whether salary revision as of 2017 implemented in all PSUs as per DPE order No. W02/0028/2017-DPE (WC) – GL- XIII17? Provide the list of PSUs where, salary revision as of 2017 not implemented as per above DPE order and reason there off?	2017 Pay Revision for Board Level, below Board Level executives and non- unionized supervisors has been implemented in POWERGRID as per DPE OM No. W02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017.
3.	Is PRP is payable to employee as per above salary revision order? If so, how much?	PRP is payable in POWERGRID as per DPE OM dated 03.08.2022
4.	When the PRP is due to an employee? Whether management can stop or delay PRP on any reason? If yes, list the reasons?	PRP payment is done after receipt of company MoU rating from MoP/DPE. PRP is neither termed as pay nor allowance nor wages and the management reserves the right for payment criterion, methodology, assumptions, etc. for payment of PRP, as deemed appropriate in accordance with DPE guidelines and to achieve the goals of the organization.
5.	Show the list of companies controlled by department of Public Enterprises and not paid PRP for the FY 2018-19, 2019-20 and 2020-21 and reason thereof for not payment PRP?	Department of Public Enterprises may reply suitably.
6.	Whether DPE or Administering ministries are aware of non-payment of PRP to employees and any supervision is made for non-compliance of DPE order? What action taken by the administrative ministries and DPE in case of non-payment of PRP in time in PSUs under them?	Department of Public Enterprises may reply suitably.
7.	What remedy is available to the employee if PRP is not paid by the management in time? Are they eligible for any compensation for delay in getting their dues in time?	As mentioned in reply 4 above.

दीपिका